



Date: July 04, 2023

The Secretary,

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,

Bandra (E),

Mumbai – 400 051

NSE Code: ARTEMISMED

The Secretary, BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai - 400 001

Scrip Code: 542919

Sub: <u>Intimation of publication of Notice in respect of 19th Annual General Meeting,</u> e-Voting information and Dividend

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Notice published in the following newspapers in respect of Annual General Meeting, e-Voting information and Dividend etc., in compliance of relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs:

- The Financial Express (English National Daily Newspaper- all editions);
- The Jansatta (Hindi National Daily Newspaper- Delhi edition).

Submitted for your information & records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Artemis Medicare Services Limited

Poonam Makkar Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above



Artemis Hospital (A unit of Artemis Medicare Services Ltd.)

Sector 51, Gurugram - 122001, Haryana, India. Ph.: +91-124-4511 111 | Fax: +91-124-4588 899

NABH & JCI Accredited • Emergency & Trauma: +91-124-4588 888



FINANCIAL EXPRESS

India aims for 10% 6G patents by 2030

DoT launches Bharat 6G Alliance to drive innovation

JATIN GROVER New Delhi, July 3

THE DEPARTMENT OF telecommunications on Monday launched an alliance of industry leaders and academia to drive innovation in next generation wireless technology as the government aims for 10% of 6G patents by 2030.

The government is eyeing to launch the 6G network by 2030. The 15-member Bharat 6G Alliance will be led by TCS chief operating office N Ganapathy

Subramaniam. Union communications ministerAshwiniVaishnawsaid the 6G alliance is basically a body created by the industry, academia and the government, so that all work related to 6G

development could be done in a

very methodical, proper and

systematic way. India has so far acquired over 200 patents of 6G technology and the number is increasing every week, he stressed. "We should keep a minimum target that 10% of the 6G IPR (intellectual property rights) are from India by the time we reach 2029

or 2030," the minister added. Telecom secretary K Rajaraman said the task of coordinating, connecting and integrating is what probably the Bharat 6G

15-MEMBER **GROUPING**



■ The 15-member Bharat 6G Alliance will be led by TCS chief operating office N Ganapathy Subramaniam

■ The alliance will have a general body, governing council and several working groups

■ The alliance will also have representatives from Vodafone Idea. C-DoT, Tech Mahindra and Jio

Alliance should do, so that India's presence is felt on the global telecommunication map. Apart from N Ganapathy Subramaniam, the alliance will

include Jagbir Singh, CTO of Vodafone Idea; Rajkumar Upadhyay, CEO of C-DoT; Kumar N Sivarajan, CTO of Tejas Networks; Jagdish Mitra; chief strategy officer of Tech Mahindra; and Ayush Bhatnagar,

senior vice president of Jio. Alliance chairman Subramaniam said."In our initial discussions regarding 6G, the primary focus areas will be how to give highly differentiated experience for sectors such as health and education; how entertainment is going to consumed and how we increase productivity in everything that we do."

The 6G networkwill provide more reliable and affordable solutions with speeds almost 100 times faster than 5G.


In March, the government had launched a vision document for 6G services in the country. The 6G vision document highlighted a roadmap to the launch of 6G services, recommendations from task forces, financial support required for projects and the opening of spectrum bands.

The alliance under the 6G Apex Council will have a general body, governing council and several working groups. The focus of the alliance will be to help grow 5G advanced and 6G intellectual properties (IPs) and essential patents from India, build 5G advanced/6G products and solutions, support India's participation in the 3GPP standards and to enable market access for startups.

EXPLAINER

DARK PATTERNS IN E-COMMERCE

The consumer affairs ministry recently urged top e-commerce players "to refrain from incorporating any design or pattern in the online interface that may fall in the category of dark patterns." It is also reportedly framing guidelines against such practices. Mukesh Jagota explains what dark patterns are and why the Centre wants to impose curbs



What are dark patterns

THE 'DARK WEB' are common knowledge now. A common misconception is that 'dark patterns' in e-commerce is contraband e-commerce happening over the dark web. That isn't the case. Dark patterns are the everyday "manipulative practices" (as the government sees it) customers are subjected to at the hands of e-commerce and web services they patronise.

This manipulation takes on many forms and the ultimate goal of this is to make consumers spend more than they had originally intended by inducing greed, urgency and fear. Other forms of manipulation take the form of adding extras on purchases without explicit consent, hiding full costs and making the process of opting out of the subscriptions difficult.

97%

OF 75 PLATFORMS IN EU HAD AT LEAST ONE DARK **PATTERN: 2022 SURVEY**

Amazon

SUFFERED ACTION IN THE US FOR NON-CONSENSUAL ENROLMENT IN PRIME

\$246 mn

REFUND ORDER AGAINST MAKERS OF FORTNITE BY US FTC

In India

TREATED AS UNFAIR TRADE PRACTICES UNDER LAW

How it commonly works

Inducing urgency: The practice here is flashing 'info-nuggets' such as "only few pieces left" along with the product. The 'number left' is often in low single-digits. Thus, the platform rushes an user into a purchase decision. Another tactic is flashing a countdown after which a discount expires.

Basket sneaking: This is common at the time of payment. An offer is made to the user—"buy goods worth ₹X more and qualify for free delivery/additional discount." Another way is adding services or products to a purchase without consent. The add-ons are preselected. It is most visible in electronics purchases; the add on is extended warranty or damage insurance. **Confirm shaming:** A travel website tells a customer making a purchase about the number of people who have taken addons like travel and baggage insurance. Then, a choice pops up: "Yes secure my trip" or "No, I will risk my trip".

Other ways this happens

Forced action: Making it

mandatory to opt for sharing of contact and other details with entities other than on which a purchase is being made, for the purchase to get completed. Nagging: Constant pop-ups requesting sharing of information in exchange for discounts. Subscription traps: This makes it easy to subscribe to a service but difficult to cancel. The cancellation button is either hidden or hard to locate, or steps are very complex. To start free trials, the platform asks for and stores billing details and automatically starts charging on trial expiry. Bait and switch: It refers to luring customers with one offer and then switching it with another. Advertising a product at low price with attractive features and switching with a different and more expensive service. **Hidden costs:** This tactic involves hiding additional costs from consumers until they

are already committed

to making a purchase.

Next leg of telecom reforms soon: Vaishnaw

COMMUNICATIONS MINISTER ASHWINI Vaishnaw on Monday said the next leg of telecom reforms will be rolled out in a couple of months, focusing on user protection. The department of telecommunica-

tions in May had launched the Sanchar Saathi portal to help users track their lost mobile phones.

"We are always putting our reforms in two categories. One is structural reform. Second is procedural reform. We have taken up some very important points both on the structural



and procedural part. And we have now focused on user protection," Vaishnaw said, adding that the reforms will be rolled out in the a couple of months.

"We are working with industry on how to bring more reforms with regard to user safety," the minister said. — FE BUREAU European Commission found that of the 399 online shops, 148 were resorting to dark pattern practices. Actions have followed

A JANUARY 2023 survey by the

What countries are doing about this

in Norway and in the US against bellwethers like Amazon. One case in the US involved the nonconsensual enrolment in the Amazon Prime programme. The Federal Trade Commission has

also taken action against the makers of Fortnite, the popular game, where a dark pattern was used to charge customers without their consent, secretly saving credit-card details. Fortnite has been ordered to refund \$245 million.

In India, dark patterns come under the ambit of Unfair Trade Practices listed in the Consumer Protection Act 2019. The relevant sections are those dealing with using unfair methods or deceptive practice to promote a sale. Manipulating choice is violative of consumer rights under the Act.

On June 13, the consumer affairs ministry organised a stakeholder consultation with major e-com players, industry and law experts. On June 28, platforms were advised not to use any means to deceive consumers or manipulate them. They were also warned of strict action for such behaviour. The ministry also encourages consumers to report instances of it on National Consumer Helpline.

bodies, consumer organisations

यूको बैंक 🕅 UCO BANK

Head Office – II, Department of Information Technology 3 & 4, DD Block, Sector – 1, Salt Lake, Kolkata–700064

NOTICE INVITING TENDER LICO Bank invites tender for the following item

Supply, Installation and Maintenance of Application Whitelisting Solution and IT Asset Management for Endpoints & Servers (through GeM Portal). Bid No: GEM/2023/B/3637113 dated 01/07/2023

Procurement of Samsung Galaxy Tab A8 LTE and L1 biometric device with Registered Device Services for 3 Years (through GeM Portal) Bid reference No:GEM/2023/B/3637642 dated 01/07/2023

For any details, please refer to https://www.ucobank.com & https://gem.gov.in. (Assistant General Manager)

Department of Information Technology Date: 02.07.2023 सम्मान आपके विश्वास का | Honours Your Trust



MANAGED TRAINING SERVICES

NIIT LEARNING SYSTEMS LIMITED CIN: U72200HR2001PLC099478 Regd. Office: Plot No. 85, Sector 32, Institutional Area, Gurugram - 122001 (Haryana) Ph. No.: 0124- 4293000; Website: www.niitmts.com; Email: investors@niitmts.com

Postal Ballot Notice

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act. 2013 (the "Act"), read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) (the "Rules") read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020 Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, Circular No. 39/2020 dated December 31 2020, General Circular No. 10/ 2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022 and General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 ("MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable laws and regulations, the Company has sent the Postal Ballot Notice or Monday, July 3, 2023 in electronic mode only, to all those Members whose names appeared in the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from the depositories as on Wednesday, June 28, 2023 i.e. Cut-off date and who have registered their e-mail address with Company and/or with their Depository Participants and made available to the Company by the respective Depositories. The requirements of sending physical copy of the Postal Ballot Notice to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars In terms of MCA Circulars, the communication of the assent or dissent of the members would take place only through the remote e-voting system.

The Company is providing facility to its members to cast their votes remotely, using the electronic voting system ("remote e-voting") through National Securities Depository Limited ('NSDL').

The documents pertaining to the business to be transacted through Postal Ballot Notice and referred therein, shall be available electronically for inspection by members upon request to the Company by sending email at investors@niitmts.com.

Members who have not registered / updated their email addresses are requested to register update their email addresses with their Depository Participants. A person whose name is recorded in the Register of Members or List of Beneficial Owners

maintained by the depositories as on the cut-off date shall be eligible to cast vote by remote e-voting only. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date. The remote e-voting period shall commence on Tuesday, July 4, 2023 (9:00 A.M. IST) and ends on Wednesday, August 2, 2023 (5:00 P.M. IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the votes on resolutions are cast by the member, it shall not be permitted to change subsequently.

The remote e-voting facility provided by NSDL is available to the member at the link www.evoting.nsdl.com which would enable the Members to cast their votes electronically. Detail instructions and information relating to remote e-voting are set out in the Postal Ballot Notice sent to the Members and available on the website of the Company i.e. www.niitmts.com.

Mr. Milan Malik, Company Secretary (Membership No. FCS 9888 of M/s Milan Malik 8 Associates, Company Secretaries hasbeen appointed as the Scrutinizer to scrutinize the postal ballot process through remote e-voting in a fair and transparent manner.

The Resolutions, if approved, shall be deemed to have been passed on the last date of e-voting i.e. August 2, 2023. The result of the Postal Ballot shall be declared by the Chairman of the Company or any other authorized person by him, on or before Friday, August 4, 2023 and communicated to the NSDL and shall also be displayed on the Company's website i.e. www.niitmts.com and on the website of NSDL i.e www.evoting.nsdl.com.

In case of any queries, members may refer Frequently Asked Questions (remote e-voting user manual available at the download section of www.evoting.ns. or call on: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.c By Order of the Boa.

For NIIT Learning Systems Limited

Deepak Bansal Company Secretary

ARTEMIS OUR SPECIALITY IS YOU

ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED

CIN: L85110DL2004PLC126414

Registered Office: Plot No. 14, Sector- 20, Dwarka, Delhi-110 075 Corporate Office: Artemis Hospital, Sector- 51, Gurugram, Haryana- 122001 Tel.: +91-124-4511 111, E-mail: investor@artemishospitals.com Website: www.artemishospitals.com

NOTICE OF 19TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND DIVIDEND Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Artemis Medicare Services Limited ("the Company") will be held on Tuesday, August 1, 2023 at 3:00 P.M. (IST) through Video Conference ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the business as set out in the Notice of AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 19/2021 dated December 8, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021, 2/2022 dated May 5 2022 and 10/2022 dated December 28, 2022 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/ CIR/2023/4 dated January 05, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as Circulars), without the physical presence of the Members at a common venue

In compliance with the aforesaid Circulars, electronic copies of the Notice of the 19th AGM and Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2023 shall be sent to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Company/Alankit Assignments Limited ("RTA")/Depository Participants ("DP") as on June 30, 2023. The AGM Notice and Annual Report for financial year 2022-23 will also be available on the website of the Company i.e. www.artemishospitals.com and on the website(s) of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, where the Company's shares are listed and on website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com

The facility of casting the votes by the Members through electronic mode ("e-Voting") will be provided by NSDL and the detailed procedure for the same shall be provided in the Notice of AGM. The remote e-Voting period commences on Saturday, July 29, 2023 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Monday, July 31, 2023 at 5:00 P.M. (IST). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e July 25, 2023 may cast their vote by remote e-Voting or by e-Voting during the AGM. Members participating through VC/OAVM shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Members, who have not registered their e-mail addresses with the Company/RTA/DPs are requested to register their e-mail addresses at the earliest for receiving the Annual Report for financial year 2022-23 along with AGM Notice. Members are requested to update/register their KYC details in the following manner:

Register/update KYC details such as PAN, e-mail addresses and Electronic Clearing Services

regard to the shareholders on their registered e-mail id.

Date: July 03, 2023

Place: Gurugram

physical holding ("ECS") mandate with RTA of the Company at rta@alankit.com, in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/ CIR/2023/37 dated March 16, 2023. Members may download the prescribed forms from the Company's website at www.artemishospitals.com. In case of demat Please contact your DP to register/update KYC details such as PAN, e-mail addresses and

bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP. The Notice of AGM shall contain the instructions regarding the manner in which shareholders can join the AGM and cast their vote through remote e-Voting and e-Voting during the AGM. Members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of AGM through remote e-Voting or e-Voting during the AGM in the manner

Members may note that the Board of Directors at their meeting held on May 5, 2023 has recommended a dividend of ₹ 0.45 per equity share for financial year 2022-23. The dividend, subject to the approval of the Members in the ensuing AGM, will be paid within 30 days from the date of AGM to the Members whose names appear in the Register of Members/ List of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the Record date i.e. July 14, 2023 through online transfer modes to the Members who have registered/updated their ECS Mandate/bank account details.

For Members who have not registered/updated their ECS mandate/bank account details, dividend warrants/ demand

drafts/ cheques will be sent to their registered addresses. To avoid delay in receiving dividend, Members are requested to register/update their ECS mandate/bank account details in the manner as mentioned above. Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. In order to enable the Company to determine the appropriate TDS rate, as applicable, shareholders are requested to submit their documents in accordance with the applicable provisions through an

e-mail to Alankit Assignments Limited, Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi – 110055, the Registrar

and Transfer Agent of the Company, at rta@alankit.com by July 14, 2023. The Company has sent an e-mail in this

The Notice of AGM and Annual Report for financial year 2022-23 will be sent to the Members in accordance with the applicable laws on their registered e-mail addresses in due course. In case of any query, a member may send an e-mail to the RTA at rta@alankit.com or Company a investor@artemishospitals.com.

For Artemis Medicare Services Limited

Poonam Makkar Company Secretary & Compliance Officer

POST OFFER PUBLIC ANNOUCEMENT

TRANSPACT ENTERPRISES LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): U33130MH2013PLC243247 Registered Office: 204, 2nd Floor, Timmy Arcade, Makwana Road, Marol, Andheri East, Mumbai – 400059. Contact No: +91 9224763158 Website: www.transpact.in E-mail Id: info@transpact.in OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF 1,00,550 (ONE LAKH FIVE HUNDRED FIFTY ONLY) EQUITY SHARES FROM

SHAREHOLDERS OF TRANSPACT ENTERPRISES LIMITED ("TEL") BY MR. RAMAN TALWAR AND MR. KAUSHIK WAGHELA

(HEREIN AFTER JOINTLY REFER TO AS "ACQUIRERS") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REGULATIONS 3(1) & 4 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATÌONS"). This Post Offer Advertisement is being issued by Aryaman Financial Services Limited, the Manager to the Offer ("Manager"), on behalf of the Acquirers, in compliance with Regulation 18 (12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations, 2011") in respect of Open Offer ("Offer") to acquire 1,00,550 (One Lakh Five Hundred & Fifty) Equity Shares of ₹ 10/- each, being constituting 26.00% of the Target Company on a fully diluted basis at a price of ₹ 140/- (Rupees One Hundred Forty Only)

("Offer Price"). This Post Offer Public Announcement is to be read with Public Announcement dated March 24, 2023 ("PA") along with the Detailed Public Statement ("DPS") published on March 31, 2023 in Financial Express (English – All Editions). Jansatta (Hindi – All Editions) and Mumbai Lakshadeep (Marathi – Mumbai Edition) with respect to the aforementioned

1	Name of the Target Company	Transpact Enterprises Limited				
2	Name of the Acquirer and PAC	Acquirer: Mr. Raman Talwar (Acquirer No 1) and Mr. Kaushik Waghela (Acquirer No 2) PAC: Nil				
3	Name of the Manager to the Offer	0.	ancial Services Limite	d		
4	Name of the Registrar to the Offer		orate Services Limited			
		Carried Corp	Jiale Services Limited	J		
5	Offer Details	Jan 2 40 000	00 (Fdday)			
(a)	Date of Opening of the Offer	June 16, 202	` ' '			
(b)	Date of Closure of the Offer	June 30, 202				
6	Last Date of Payment of Consideration		ere tendered; hence n			
7	Details of Acquisition	Proposed in	the Offer Document		tual	
7.1	Offer Price		₹ 140/-		40/-	
7.2	Aggregate number of shares tendered	X	,00,550 ^(a)		Vil	
7.3	Aggregate number of shares accepted	1,00,550 ^(a) ₹ 1,40,77,000/-		Nil		
7.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by offer price per share)			₹Nil		
		Number	In %	Number	In %	
7.5	Shareholding of the Acquirers along with PAC/ deemed PAC before Agreements / Public Announcement	Nil	Nil	Nil	Nil	
7.6	Shares Acquired by way of Agreements	1,24,510	32.20%	1,24,510 ^(b)	32.20% ^(b)	
7.7	Shares Acquired by way of Open Offer	1,00,550 ⁽	a) 26.00% ^(a)	Nil	Nil	
7.8	Shares acquired after Detailed Public Statement	Nil	Nil	Nil	Nil	
7.9	Post Offer Shareholding of Acquirer along with PAC	2,25,060 ⁽		1,24,510 ^(b)	32.20% ^(b)	
	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre Offer	Post Offer	Pre Offer	Post Offer	
7.10	Number	2,60,535	1,59,985	2,60,535	2,60,535 ^(c)	
	In %	67.37%	41.37%	67.37%	67.37% ^(c)	
Note:					10	

(a) Assuming full acceptance under the Open Offer.

(b) The Acquirers shall complete the transaction under Share Purchase Agreement within the stipulated time period as provided under Reg. 22(3) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.

(c) No shares were tendered in the Open Offer and hence there are no changes in the shareholding of the public category. Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and

the Letter of Offer. All other terms and conditions of the Offer shall remain unchanged. The Acquirers accepts the responsibility for the information contained in this Announcement and also for the obligations of the Acquirers laid down in the SEBI (Substantial Acquisitions of Shares and Takeover) Regulations, 2011 and subsequent

of this Post Offer Advertisement will also be available on the SEBI website at www.sebi.gov.in, BSE website at seindia.com and at the Registered Office of the Target Company i.e. 204, 2nd Floor, Timmy Arcade, Makwana Road, Marol,

neri East, Mumbai – 400 059. S ANNOUNCEMENT IS ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRERS



ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED (CIN No.: L74899DL1994PLC059009) 60, Khatau Building, Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. P. J. Towers (BSE Building), Fort, Mumbai – 400 001. **Tel:** 022 – 6216 6999; Website: www.afsl.co.in Email: info@afsl.co.in **Contact Person:** Mr. Deepak Biyani / Mr. Gaurav Sanghani

Place: Mumbai

New Delhi

Date: July 04, 2023

financialexp.epapr.in

Place: Gurugram

Date: July 3, 2023

4 जुलाई, 2023

न्यायाधिकरण-(भारत सरकार, वित्त मंत्रालय)

द्वितीय तल, टेलीफोन भवन, कोलाबा मार्किट, कोलाबा, मुंबई-400005 (5वां तल, सिंधिया हाउस, बल्लार्ड एस्टेट, मुंबई — 400001) ओ.ए. सं. 503 वर्ष 2022

ईएक्सएच. नंबर : 16

पंजाब नैशनल बैंकआवेदक |मैसर्स विराफ स्रकारी एवं अन्य प्रतिवादीगण सेवा में. प्रतिवादी सं. 4 के—804 / जैड, माता चौक, वसंत कुंज रोड, महीपालपुर, न दिल्ली-110037

जबिक, ओ.ए. सं. 503/2022 दिनांक 02-06-2023 को माननीय पीठ अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया

जबिक, यह माननीय न्यायाधिकरण आपके विरुद्ध रू. 10,46,68,267.48 के ऋण की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 19(4) के तहत प्रस्तुत किए गए मूल आवेदन (ओए) के संबंध में सम्मन / नोटिस जारी का अनुग्रह कर रहा है जबिक साधारण ढंग से सम्मन / नोटिस की तामील नहीं की जा सकी है और जबिक इस न्यायाधिकरण द्वारा

वैकल्पिक तामील हेतु आवेदन की अनुमति दी गई है। अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत आप प्रतिवादियों को निम्न निर्देश भी दिया जाता है :--सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए ;) मल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तिये अथवा आस्तियों के विवरण प्रस्तत करें

ii) आप को, सम्पत्तियों की कुर्की हेतु आवेदन की सुनवाई लम्बित रहने तथा निपटान तक, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक उक के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान

v) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभृति हित सुजित किया गया है तथा / अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क व तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे ; आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभृति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनरक्षित खाते में जमा करने हेत जिम्मेदार होंगे।

आपको इसके अतिरिक्त अपना लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवेदक को मुहैया कराने और रिजस्ट्रा के समक्ष 02-08-2023 को दोपहर 12.00 बजे पेश होने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने की स्थिति में आवेदन की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 05 जून, 2023 को दिया गया। ऋण वसूली न्यायाधिकरण-1, मुंबई

NIIT

एनआईआईटी लिमिटेड

CIN: L74899HR1981PLC107123 पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं०. 85, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुगाम - 122001, (हरियाणा) फोन न0.: 0124- 4293000, फैक्स न0: 0124-4293333 वेवसाइटः www.niit.com; ईनेलः investors@niit.com

डाक मतपत्र सूचना सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा

110 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 (समय-समय पर उस पर लागू कोई सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) ("नियम") के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी किए गए परिपन्न सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 22/2020 दिनांक 15 जन, 2020, परिपत्र सं. 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020 परिपत्र सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 10/2021 दिनांक 23 जन, 2021, सामान्य परिपत्र सं. 2/2022 दिनांक 5 मई. 2022 और सामान्य परिपत्र सं. 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 ("एमसीए परिपन्न"), भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और अन्य लागू नियमों एवं विनिमयों के अनुसरण में कंपनी ने सोमवार, 3 जुलाई, 2023 को ढाक मतपत्र सूचना उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी है जिनके नाम बुधवार, 28 जून, 2023 अर्थात् कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर/ढिपॉजिटरीज से प्राप्त किए गए अनुसार लामार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं और जिन्होंने अपना ई-मेल पता कंपनी (भौतिक प्रारूप में घारित शेयरों के संबंध में) और / या अपने ढिपोंजिटरी प्रतिमागियों (ढिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में घारित शेयरों के संबंध में) के पास पंजीकृत कराया है और संबंधित डिपॉजिटरी द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराया गया है। सदस्यों को डाक मतपत्र सूचना की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दी गई है। एमसीए परिपत्रों के संदर्भ में सदस्यों से सहमति या असहमति केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ली जाएगी।

कंपनी अपने सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") का उपयोग करके अपने वोट देने की सुविधा

डाक मतपत्र सूचना के माध्यम से और उसमें सदर्मित व्यवसाय की मद के निष्पादन से संबंधित दस्तावेज ई-मेलः investors@nit.com पर अनुरोध भेजने पर कंपनी द्वारा अपने सदस्यों के लिए निरीक्षण हेत् इलेक्टॉनिकली उपलब्ध कराये जाएंगे।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता कंपनी के पास पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि अपना नाम, पता, फोलियो नम्बर एवं सदस्य के पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति के साथ हस्ताक्षित अनुरोध पत्र कंपनी के पास investors@niit.com पर या रजिस्टार एवं शेयर टांसफर एजेंट (आरटीए), अलंकित एसाइनमेंटस लिमिटेड के पास rta@alankit.com पर मेजकर इसे पंजीकृत/अपडेट कराए।

क्षिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत / अपडेट कराएं।

ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार किये गये लामार्थी स्वामियों की सूची (इलेक्ट्रॉनिक शेयरहोल्डिंग के मामले में) में दर्ज होगा, केवल वहीं रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना बोट देने के लिए योग्य होंगे। सदस्यों का बोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के आनुपातिक होगा। रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 4 जुलाई, 2023 (प्रात: 9.00 बजे आईएसटी) प्रारंग होगी और बुधवार, 2 अगस्त, 2023 (साथं 5.00 बर्जे आईएसटी) समाप्त होगी। उसके बाद एनएसढीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद उसे किसी भी स्थिति में बाद में बदलने की जनुमति नहीं होगी।

एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लिंक www.evoting.nsd.com पर उपलब्ध है जो शेयरघारक को इलेक्ट्रॉनिकली अपना बोट देने के लिए सक्षम करेगा।


रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-मेल पते के पंजीकरण के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं जानकारी शेयर धारकों को भेजी गई ढाक मतपत्र सूचना में दी गई है और कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nit.com

ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से ढाक मतपत्र प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए श्री नित्यानंद सिंह, कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस 2668), मैसर्स नित्यानंद सिंह एंड कं., कंपनी सचिवों को जांच के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रस्ताव, यदि अनुमोदित हो जाता है तो इसे ई-वोटिंग की अंतिम तिथि अर्थात् 2 अगस्त, 2023 को पारित माना जाएगा। डाक मतपत्र का परिणाम कंपनी के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत कि

व्यक्ति द्वारा शुक्रवार, 4 अगस्त, 2023 को या उससे पूर्व घोषित किया जाएगा और इसकी स्टॉक एक्सचेंजों, एनएसडीएल को भी दी जाएगी और इसे कंपनी की वेबसाइट अर्थात 🛩 और एनएसढीएल की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdi.com पर भी प्रदर्शित किया ्रगा। किसी भी पूछताछ के लिए, सदस्यगण www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन करें या 022 - 4886 7000 और 022 - 2499 7000 पर सम्पर्क कर सकते हैं या

evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

बोर्ड के आदेश से कृते एनआईआईटी लिमिटेड Etal./-अर्पिता विसारिया मल्होत्रा कंपनी सचिव





एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड CIN: U72200HR2001PLC099478 पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं०. 85, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया,

बुरूबाम - 122001, (हरियाणा) फोन नa.: 0124- 4293000; वेबसाइट: www.niitmts.com; इंमेलः investors@niitmts.com

ढाक मतपत्र सचना

सदस्यों को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 110 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 (समय-समय पर उस पर लाग् कोई सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) ("निवम") के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी किए गए परिपन्न सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपन्न सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपन्न सं. 22/2020 दिनांक 15 जुन, 2020, परिपन्न सं. 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020 परिपन्न सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, सामान्य परिपन्न सं. 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 और सामान्य परिपन्न सं. 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 ("एमसीए परिपन्न"), भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 और अन्य लागू नियमों एवं विनिमयों के अनुसरण मे कंपनी ने सोमवार, 3 जुलाई, 2023 को डाक मतपत्र सूचना उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मेज दी है जिनके नाम बुधवार, 28 जून, 2023 अर्थात् कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर/दिपॉजिटरीज से प्राप्त किए गए अनुसार लाभार्थी स्वामियों की सची में दर्ज हैं और जिन्होंने अपना ई-मेल पता कंपनी और / या अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के पास पंजीकृत कराया और संबंधित डिपॉजिटरी द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराया गया है। सदस्या का डाक मतपत्र सूचना की मौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दी गई है। एमसीए परिपत्रों के संदर्भ में सदस्यों से सहमति या असहमति केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ली जाएगी।

कंपनी अपने सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") का उपयोग करके अपने वोट देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है।

डाक मतपत्र सूचना के माध्यम से और उसमें सदर्मित व्यवसाय की मद के निष्पादन से संबंधित दस्तावेज ई-मेलः investors@nitmts.com पर अनुरोध भेजने पर कंपनी द्वारा अपने सदस्यों के लिए निरीक्षण हेत् इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध कराये जाएंगे।

सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे

अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराएं। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार किये गये लामार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज होगा, केवल वहीं रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट देने के लिए योग्य होंगे। सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि को कंपनी की प्रदत्त इविवटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के आनुपातिक होगा। रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 4 जुलाई, 2023 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी) प्रारंभ होगी और बुधवार, 2 अगस्त, 2023 (सायं 5.00 बजे आईएसटी) समाप्त होगी। उसके बाद एनएसढीएल द्वारा रिमोट ई-बोटिंग मॉब्यूल हटा लिया जाएगा। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद उसे किसी भी स्थिति में बाद में बदलने की अनुमति

नहीं होगी। एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लिंक www.evoting.nsdi.com पर उपलब्ध है जो शेयरधारक को इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट देने के लिए सक्षम करेगा।

रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं जानकारी शेयर धारकों को मेजी गई ढाक मतपत्र सूचना में दी गई है और कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.niitmts.com पर उपलब्ध है।

ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से ढाक मतपत्र प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए श्री मिलन मलिक, कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस 9888 मैसर्स मिलन मलिक एंड एसोसिएटस, कंपनी सचिवों को जांच के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

प्रस्ताव, यदि अनुमोदित हो जाता है तो इसे ई-वोटिंग की अंतिम तिथि अर्थात 2 अगस्त, 2023 को पारित माना जाएगा। ढाक मतपत्र का परिणाम कंपनी के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा शुक्रवार, 4 अगस्त, 2023 को या उससे पूर्व घोषित किया जाएगा और इसकी सूचना एनएसढीएल को भी दी जाएगी और इसे कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nitmts.com और एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात www.evoing.nsdl.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

किसी भी पूछताछ के लिए. सदस्यगण www.evofing.nsdl.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन करें या 022 - 4886 7000 और 022 - 2499 7000 पर सम्पर्क कर सकते है या evoting@nsdi.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

🌱 के आदेश से कृते एनआईआईटी सर्निंग प सिमिटेड

कंपनी

दिनांक: ०३ जुलाई, २०२३

स्थान: गुरुग्राम

अधिग्रहण सूचना HDFC BANK भूखण्ड #31, नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र, टॉवर-ए, प्रथम तल, परिशिष्ट IV [नियम 8(1)] शिवाजी मार्ग, मोती नगर, नई दिल्ली-110015 We understand your world जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रति

प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर बकाया राशि का भूगतान करने को कहा गया था। विवरण निम्नानुसार 13(2) सूचना दिनांक : 13-04-2023 स्वामी श्री अजीत सिंह के माध्यम से, 2. श्री के भाग के रूप में है, जिसका क्षेत्र माप 175 वर्ग गज है, जे सूचना राशि : रु. 77,44,485/-

अजीत सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह, 3. श्रीमती (िकिनारे) पर. कालकाजी, नई दिल्ली में स्थित है। (संपत्ति श्री कुलविंदर कौर पत्नी श्री अजीत सिंह अपने निदेशकों :- श्री चंदर पाहवा एवं श्री राम को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के लेआउट प्लान में, जीवन निकेतन के रूप में विदित, नई दिल्ली में स्थित प्रकाश पाहवा के माध्यम से, 2. श्री राम प्रकाश है (संपत्ति श्री राम प्रकाश पाहवा के स्वामित्वधारण में है) जो इस पाहवा पुत्र श्री हुकुम चंद पाहवा, 3. श्री चंदर प्रकार परिसीमित हैः उत्तर— सर्विस लेन, पूर्व— भूखंड सं. बी–56, पाहवा पुत्र श्री राम प्रकाश पाहवा दक्षिण- सड़क 8 फूट, पश्चिम- भूखंड सं. बी-58

चृंकि ऋणकर्ता(गण) निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ता(औं) को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें उपरोक्त विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, ऊपर अंकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन जो होगा, वह ऊपर अंकित सूचनाओं की एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज, व्ययों एवं शुल्कों इत्यादि, चुकताकृत राशि—यदि कोई हो, को घटाकर, हेत् एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। दिनांक : 04-07-2023 प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

कब्जा सूचना

स्थानः फरीदाबाद, हरियाणा

(अचल सम्पत्ति के लिए)

DCB BANK

डीसीबी बैंक लिमिटेड

अधिग्रहण दिनांक : 30—जून—2023

स्थान : नई दिल्ली

13(2) सूचना दिनांक : 06—04—2023

स्थान : नई दिल्ली

सूचना राशि : रु. 2,29,76,388 /

अधोहस्ताक्षरी डीसीबी बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी हैं, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (द्वितीय अध्यादेश, २००२ (२००२ का अध्यादेश ३) और धारा १३(२) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली, २००२ के नियम 9 के साथ पठित एक मांग नोटिस जारी किया गया है. जैसा कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है नामित उधारकर्ताओं सह-उधारकर्ताओं / गारंटर से सुचना में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर कहा गया है जैसा कि तालिका में वर्णित राशि है।

उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता राशि चूकाने में विफल रहे हैं, इसके द्वारा उधारकर्ता, सह–ऋणकर्ता / गारंटर और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त अध्यादेश की धारा 13(4) के तहत नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

कर्जदारों तथा सह–कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतदद्वारा सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतू सावधान किया जाता है तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार डीसीबी बैंक लिमिटेड की बकाया राशि तथा उस पर आगे ब्याज और लागत अदा करने के बाद ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	एग्रीमेंट सं.	कर्जदार सह—कर्जदार गारंटर एवं कानूनी वारिष	मांग सूचनाकी तिथि/मांग सूचना में बकाया	संपत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि
	DRBLDEL00404528	चन्द्र भान बत्रा, दीपक बत्रा, मैसर्स उर्वशी रबर वर्क्स एवं हरकेश बत्रा		मकान सं. 225 / 1 रघुवरी कॉलोनी निकट सीगी गेट बल्लभगढ़ फरीदाबाद, हरियाणा 121004	
तिशि	प्रः 04−07−2023			हस्ता. _. प्राधिकृ	/— व्त अधिकारी

एक्सिस हाऊस, स्ट्रक्चर्ड असैट्स ग्रुप, प्लॉट 1-14, टॉवर 4, चौथा **AXIS BANK** तल, सैक्टर 128, नोएडा (उ. प्र.)- 201304, फोन नं. 0120-6310933 कब्जा सूचना

प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(1) के साथ के पठित परिशिष्ट IV के अनुसार चूंकि, एक्सिस बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण व पुनःनिर्माण तथा प्रतिभृति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभृति ब्याज के (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3, 8 व 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में वर्णित राशि को अदा करने के लिए आमंत्रित करते हुए कर्जदारों, गारंटर और रेहनकर्ता को **दिनांक 07.03.2022** को डिमांड नोटिस जारी किया था **और दिनांक 25.03.2022 को दो समाचार पत्रों अर्थात बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी)** और बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी) में प्रकाशित किया था।

कर्जदार/गारंटरों/रेहनकर्ता द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार/गारंटरों/रेहनकर्ता व सामान्य तौर पर जनता को एतदुद्वारा सुचित किय जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति ब्याज के (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पढ़ते हुए कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित तिथि को यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का **प्रतीकात्मक कब्जा** ले लिया है। कर्जदार/गारंटर/रेहनकर्ताओं के ध्यान में लाया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभृतित परिसंपत्तियों को मुक्त करवाने के लिए समय उपलब्ध है।

कर्जदारों. गारंटर और रेहनकर्ता को विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर सम्पत्ति के साथ लेन-देन करने से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन देन) एक्सिस बैंक लि. के प्रभार के अधीन होगा।

	33	VI Y		NO.
कर्जदार⁄गारंटरों∕रेहनकर्ता के नाम	कर्जदार∕गारंटरों ∕रहनकर्ता के नाम	डिमांड नोटिस की तिथि	कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस में राशि
1. मैसर्स प्रीसिटेक एनक्लोजर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार रेहनकर्ता और	٥,	07.03.2022		31.01.2022 को देय राशि होने के नाते
बंधककर्ता), डी-18/46ए, पुराना गोविंद पुरा, चंदर नगर, नई दिल्ली-110051 और यहां भीः औद्योगिक प्लॉट नंबर 24, सेक्टर 7, औद्योगिक क्षेत्र, आईआईई पंतनगर यू.एस. नगर, उत्तरांचल और प्लॉट नंबर सी-201, सेक्टर 63, फेज-3, नोएडा उत्तर प्रदेश, 2. श्री परवीन कोहली (गारंटर) 3ए/122, जीसी	मशीनरी/अचल संपत्ति। 3. ग्राम कल्याणपुर (आईआईई पंतनगर) तः उधम सिंह नगर में स्थित प्लॉट नंबर 24, सेव 411, 412, 414) रकबा 360 वर्ग मीटर पर नि का सम्यक रेहन सीमाबद्धः पूर्वः- प्लॉट नं.	इसील किच्छा, जिला rटर 7, (खसरा नंबर ार्मित भवन और भूमि 39 एवं 40, पश्चिमः-	4,63,66,977. करोड़ तिरेसठ सौ सतहत्तर अं (इसमें 31.08 ब्याज शामिल	.48 रु. (रुपये चार लाख छियासठ हजार नौ गौर अड़तालीस पैसे मात्र)
ग्रांड, वैभव खंड, इंदिरापुरम, शिप्रा सन सिटी, ग	गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014, 3. श्री सुनी	ल कोहली (गारंटर)	3ए/123, जीसी <u>ग</u>	ग्रांड, वैभव खंड, इंदिरापुरम,

शिप्रा सन सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014, 4. सुश्री अंजू कोहली (गारंटर) 3ए/122, जीसी ग्रांड, वैभव खंड, इंदिरापुरम, शिप्रा सन सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014, 5. सुश्री सीमा कोहली (गारंटर) उए/123, जीसी ग्रांड, वैभव खंड, इंदिरापुरम, शिप्रा सन सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014, 6 श्री साहिल कोहली (गारंटर) 3ए/122, जीसी ग्रांड, वैभव खंड, इंदिरापुरम, शिप्रा सन सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014, 7. मेसर्स प्रीसिटेक इंजीनियर्स (गारंटर और टेन्नकर्ता) प्लॉट नंबर सी-200, सेक्टर 63, फेज-3, नोएडा इसके अलावाः डी 18/46ए, पुराना गोबिंद पुरा, चंदर नगर,

दिनांक: स्थान : पंतनगर, सिडकल (प्राधिकृत अधिकारी), ए। बैंक लि.

आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड

OUR SPECIALITY IS YOU

CIN: L85110DL2004PLC126414 प्लॉट नंबर १४, सेक्टर २०, द्वारका, दिल्ली- ११००७५

कॉर्पोरेट कार्यालय: आरेंमिस अस्पताल, सेक्टर- ५१, गुरुग्राम, हरियाणा- १२२००१ फोन: +91-124-4511 111, ईमेल: investor@artemishospitals.com वेबसाइट: www.artemishospitals.com

19[#] वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग और लाभांश जानकारी

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि **आरेंमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड** ('कंपनी') के सदस्यों की 19वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') मंगलवार, १ अगस्त, २०२३ को अपराहन ३:०० बजे (आईएसटी) कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") और उसके तहते बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ के लागू प्रावधानों के अनुपालन में और सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक ८ अप्रैल २०२०, १७/२०२० दिनांक १३ अप्रैल २०२०, २०/२०२० दिनांक ५ मर्ड २०२०, ०२/२०२१ दिनांक १३ जनवरी २०२१, १९/२०२१ दिनांक ८ दिसम्बर २०२१, २१/२०२१ दिनांक १४ दिसम्बर २०२१, 2/2022 दिनांक ५ मई २०२२ और १०/२०२२ दिनांक २८ दिसम्बर २०२२ के साथ पठित और कॉपॉरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्र और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMDI/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 और SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी 2023 (इसके बाद सामूहिक रूप से परिपन्न के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एजीएम के नोटिस में निधारित अनुसार व्यवसायों का संचालन करने के लिए सदस्यों की सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से, आयोजित की

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में. 31 मार्च. 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 19वीं एजीएम की सूचना और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों उन सभी सदस्यों को भेजी जाएंगी जिनकी ई-मेल आईडी ३० जुन, २०२३ तेंक कंपनी/अलंकित असाइगंमेंट्स लिमिटेड ("आरटीए")/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ("डीपी") के साथ पंजीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.artemishospitals.com और स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com, पर भी उपलब्ध होगी जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com

सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोड ("ई-वोटिंग") के माध्यम से वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी और इसके लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में प्रदान की जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, 29 ज़लाई, 2023 को सबह 9:00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी और सोमवार, ३१ जुलाई, २०२३ को शाम ५:०० बजे (आईएसटी) समाप्त होगा। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, जिनके पास कट-ऑफ तिथि यानी २५ जुलाई, २०२३ तक भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा अपना वोटें डाल सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा १०३ के तहत कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा।

जिन सदस्यों ने कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम नोटिस के साथ वित्तीय वर्ष २०२२-२३ की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द अपने ई-मेल पते पंजीकृत करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने केवाईसी विवरण को निम्नलिखित तरीके से अद्यतन/पंजीकृत करें:

भौतिक होल्डिंग के प्रपत्र ISR-1 और अन्य प्रासंगिक प्रपत्र के अनुपालन में निर्धारित सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 दिनांक १६ मार्च, २०२३ के अनुसार केवाईसी विवरण जैसे पैन, ई-मेल मामले में पते और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज ("ईसीएस") अधिकार का विवरण कंपनी के आरटीए के साथ rta@alankit.com पर भेजकर पंजीकृत/अद्यतन करें।

कुपया अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में केवाईसी विवरण जैसे पैन, ई-मेल पेते और बैंक खाते के विवरण को पंजीकत/अपडेट करने के लिए अपने डीपी से संपर्क करें।

शेयरधारकों के एजीएम में शामिल होने. रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के तरीके के निर्देश एजीएम की सूचना में निहित होंगे। जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर रखते हैं या जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है उन्हें एजीएम की सूचेंना में दिए गए तरीके से रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएँम की सूचना में निधारित व्यवसायों पर दूरस्थ रूप से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा।

सदस्य ध्यान दें कि निदेशक मंडल ने 5 मई. २०२३ को हई अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के लिए प्रति इक्विटी शेयर 🕏 ०.४५ के लाभांश की सिफारिश की है। आगामी एजीएम में सदस्यों के अनमोदन के अधीन, लाभांश का भगतान एजीएम की तारीख से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम रिकॉर्ड के अनुसार यानी १४ जुलाई, २०२३ तॅक डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर / लाभकारी मालिकों की सूची में दिखाई देंगे और जिन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर मोड के माध्यम से अपने ईसीएस अधिदेश/ बैंक खाते के विवरण पंजीकृत/अद्यतन कर लिए हैं।

जिन सदस्यों ने अपने ईसीएस मैंडेट/बैंक खाते के विवरण को पंजीकृत/अद्यतन नहीं किया है, उनके पंजीकृत पते पर लाभांश वारंट/ डिमांड डाफ्ट/चेक भेजे जाएंगे। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, सदस्यों से अनरोध है कि वे ऊपर बताए अनसार अपने ईसीएस अधिकार/बैंक खाते के विवरण को पंजीकत/अद्यतन करें। वित्त अधिनियम २०२० के अनुसार, लाभांश आय । अप्रैल, २०२० से शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगी और कंपनी को निर्धारित दरो

पर शेयरधारकों को भगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती करने की आवश्यकता है। विभिन्न श्रेणियों पर निर्धारित दरों के लिए, शेयरधारकों से वित्त अधिनियम, २०२० और उसके संशोधनों को देखने का अनुरोध किया जाता है। कंपनी को उचित टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, जैसा लागू हो, शेयरधारकों से अन्रोध है किं वे लागू प्रावधानों के अनुसार अपने दस्तावेज़ अलंकित असाइगंमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली - 110055, को कंपनी के रजिस्टार और ्ट्रांसफर एजेंट, <u>rta@alankit.co</u>m पर १४ जुलाई, २०२३ तक एक ई-मेल के माध्यम से जमा करें। कंपनी ने इस संबंध में शेयरधारकों को उनकी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर एक ई-मेल भेजा है। वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों को लागू कानूनों के अनुसार उनके पंजीकृत ई-मेल पते

पर उचित समय पर भेजी जाएगी। किसी भी प्रश्न के मामले में, कोई सदस्य आरटीए को rta@alankit.com पर या कंपनी को investor@artemishospitals.com पर एक ई-मेल भेज सकता है।

पूनम मक्कड कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

कृते आरेंमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड



क्षेत्रीय कार्यालय : प्रथम तल, बरेली विकास प्राधिकरण कॉम्प्लेक्स प्रियदर्शनी नगर बरेली 243122 दूरभाष क्रमांक: 0581-230310

कब्जा धारण की सूचना [सुरक्षित हित(प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(1) के तहत]

अधोहस्ताक्षरी जो कि यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया ने सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी है ने धारा 13(2) जिसे सिक्योरिटी इंट्रैस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के साथ पढ़ा जाये, में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए माँग सूचना जारी की थी तथा ऋणी को माँग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का भुगतान नोटिस की दिनांक सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था भुगतान करने में असमर्थ रहने के कारण ऋणी/मोर्टगेजर तथा सामान्य जनता को सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपरोक्त एक्ट की धारा 13 (4) जिसे इंफोर्समैंट नियम 8 के साथ पढ़ा जाये में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा प्राप्त कर लिया है ऋणी व मोर्टगेजर को विशिष्ट रूप से तथा सामान्य रूप से सतर्क किया जाता है कि निम्न सम्पत्तियों का सौदा न करें तथा सम्पत्ति के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार/लेन-देन युनियन बैंक ऑफ इण्डिया की सम्बन्धित शाखा की ऋण राशि, ब्याज एवं अन्य व्यय के भार के आधीन होगा। जिन सम्पत्तियों पर कब्जा किया गया उनका विवरण इस प्रकार है।

क्र. सं.	ऋणी खाते का नाम व पता गारन्टर का नाम व पता एवं शाखा का नाम	धारा 13 (2) के अंतर्गत बकाया राशि एवं मांग सूचना दिनांक	गिरवी रखी अचल सम्पित्यों का विवरण
1.	ऋणी: मैसर्स चन्द्रा फर्नीचर हाऊस प्रो. श्री मो. अजीम पुत्र श्री अनवर अली, निकट साबरी मस्जिद हजियापुर, बरेली यू.पी. गारन्टर: श्री सुहाले अन्सारी पुत्र श्री मो. शब्बीर, 411/223, हजियापुर, पुराना शहर, बरेली, यू.पी. प्रेम नगर शाखा, बरेली	मांग सूचना दिनांक 12.04.2021 एवं एविकात्मक कव्या	आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड क्षेत्रफल 100.69 वर्ग मी. श्री मोहम्मद अज़ीम के नाम खसरा सं. 17/1, 19,20,39,45-47 एवं 75 मोहल्ला जगतपुर लाला बेगम, हजियापुर निकट साबरी मस्जिद, बरेली-243005 में स्थित है चौहद्दी: पूरब - रोड 12फिट, पश्चिम - सईद मियाँ का मकान, उत्तर- रफीक का मकान, दक्षिण - छुटाई निशा की सम्पत्ति

शुद्धिपत्र सूचना : उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में दिनांक 29.06.2023 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित कब्जा सूचना नोटिस जो त्रुटिवश गलत प्रकाशित हो गया है अत: उस कब्जा सूचना के स्थान पर इस कब्जा सूचना को सही समझा व पढा जाये। नोट :- सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत बैंक के अधिकार पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना, पहले जारी किया गया कब्जा नोटिस, यदि

कोई हो, वापस लिया हुआ माना जाएगा। सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत बैंक आगे की कार्यवाही का अधिकार सुरक्षित रखता है। दिनांक: 04.07.2023 स्थान : बरेली प्राधिकत अधिकारी

में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल-एचएफएल) निगमित कार्यालयः भुखंड सं. 98, उद्योग विहार, फेज-4, गुडगांव, हरियाणा–122015 (हरियाणा) शाखा कार्यालय : ''प्लॉट नंबर 98, उद्योग विहार, फेज—IV, गुड़गांव, हरियाणा—122015''/ ''प्लॉट नंबर 30/30ई, अपर ग्राउंड फ्लोर, मुख्य शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम बगल में मोती नगर नई दिल्ली" / " ऑफिस नंबर 1, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेटो टॉवर, प्लॉट नंबर सी-1, सेक्टर-4 वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010" के पास बंधककत अचल सम्पित का विक्रय। जबिक आईआईएफएल–एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ('एओ') ने, आईआईएफएल–एचएफएल की देयराषियों की वसूली हेतु, निम्नलिखित सम्पत्ति/यों का ''जैसी हैं जहां हैं आधार एवं जैसी हैं जो हैं आधार'' पर विक्रय करने के एकाधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों / प्रोस्पेक्ट नंबरों के तहत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुपालन में उनक अधिग्रहण कर लिया था। विक्रय जो है, वह अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइटः www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई—नीलामी मंच के माध्यम से किया जाएँगा। ऋणकर्ता (ओं) / एवं राषि परिसंपत्ति का विवरण की तिथि रु. 98,99,000 ∕

	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 04—अगस्त—2023 को 11.00—14.00 बजे		धराज अंतिम तिथि 07—अगस्त—2023 को 5 बजे त	क		मी की तिथि/समय हो 11.00 बजे से 13.00 बजे
 श्री ईश्वर चद जना श्रीमती अनीता जना (प्रोस्पेक्ट नं. 906591) 	08—सित.—2022 एवं रु. 12,14,964/- (रुपये बारह लाख चौदह हजार नौ सौ चौंसठ मात्र) बोली वृद्धि राषि रु. 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र)	वाली संपत्ति के सम अधिमाप 450 वर्ग फु नंबर 769, डब्ल्यू नंब में से, लाल डोरा क	, प्रथम तल, छताधिकारों के बिना गरत वह भाग तथा अंश जिसका गुट है, जो निर्मित संपत्ति एमसीडी र 6 में, खसरा नंबर 1151 3 मिन ठी आबादी, ग्राम महरौली तहसील भारत 110030 में स्थित है। वर्ग फुट)	अधिग्रहण की 23—जून—2 कुल बका दिनांक 01—जून—202 रु. 12,17,146/— (रुप सत्रह हजार एक सौ 1	023 या 23 के अनुसार पये बारह लाख	रु. 17,02,000 / — (रुपये सत्रह लाख दो हजार मात्र) धरोहर राषि जमा (धराज) रु. 1,70,200 / — (रुपये एक लाख सत्तर हजार दो सौ मात्र
 मोहम्मद हीरा मदीना बेगम मोहम्मद नियामत (प्रोस्पेक्ट नं. 764704 एवं 919909 एवं 964029) 	18—जन.—2023 एवं रु. 20,56,498/– (रुपये बीस लाख छप्पन हजार चार सौ अट्ठानबे मात्र) बोली वृद्धि राषि रु. 25,000 / — (रुपये पच्चीस हजार मात्र)	वह भाग तथा अंश 444 वर्ग फुट है, जे नंबर—सी–1–6 पर लोनी, गाजियाबाद, भारत में स्थित है।	रूसएफ—3, द्वितीय तल के समस्त जिसका अधि निर्मित क्षेत्राधिमापन ो पीछे सीधे हाथ की ओर, प्लॉट निर्मित, डीएलएफ अंकुर विहार, 201010, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,	अधिग्रहण की 21—जून—2 कुल बका दिनांक 01—जून—202 रु. 21,65,36 (रुपये इक्कीस लाख तीन सौ चौंस्त	023 या 23 के अनुसार 4/– । पैंसठ हजार 5 मात्र)	रु. 10,66,000 /— (रुपये दस लाख छियासठ हजार मात्र) धरोहर राषि जमा (धराज) रु. 1,06,600 /— (रुपये एक लाख छह हजार छह सौ मात्र)
1. श्री सुरेंद्र कुमार, 2. श्रीमती प्रेमलता स्वामी (प्रोस्पेक्ट नं. आईएल10126243)	रु. 23,90,830/- (रुपये तेईस लाख नब्बे हजार आठ सौ तीस मात्र) बोली वृद्धि राषि रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)	में स्थित प्लॉट नंबर संपत्ति के समस्त वह (क्षेत्राधिमापन 1782 व	वर्ग फुट)	कुल बका दिनांक 01-जून-202 रु. 22,61,972 / — (रुप इकसठ हजार बहत्तर मा	23 के अनुसार गये बाईस लाख नौ सौ त्र)	हजार मात्र) धरोहर राषि जमा (धराज) रु. 9,89,900 / — (रुपये नौ लाख नवासी हजार नौ सौ मात्र)

- ई-नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए इच्छक बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे अपने विवरणों को पर्याप्त समय पूर्व सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://www.bankeauctions.com के साथ पंजीकृत लें और उन्हें इस हेतु लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी व पासवर्ड सृजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपने "निविदा प्रपत्र", धराज के भुगतान विवरणों, केवाईसी एवं पैन कार्ड की प्रतियों के साथ ऊप वर्णित शाखा कार्यालय में प्रस्तुत / प्रेषित करने होंगे।
- रकम प्रतिभुत लेनदार द्वारा विक्रय की अभिपुष्टि किए जाने की तिथि से 15 दिवसों के अंदर जमा करनी होगी। समस्त जमाएं तथा भगतान जो हैं, वो भगतान के निर्धारित प्रारूप के तहत किए जाएंगे। क्रेता को सम्पत्ति से संबंधित समस्त करों एवं दरों लागतों सहित उपकर, लाग स्टांप शुल्क, शुल्कों एवं किसी अन्य संवैधानिक देयराषि अथवा अन्य देयताओं जैसे नगर निगम कर, विद्युत प्रभारों, भूमि एवं सम
- बोलीदाताओं को सलाह है कि वे ई-नीलामी विक्रय कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करने से पहले नीलामी विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा नीलामी आवेदन प्रपत्र हेतु वेबसा https://bankeauctions.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देख लें।
- विवरणों. सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रषिक्षण के लिए प्रस्तावित बोलीदातागण जो हैं. वे सेवा प्रदाता से ई-मेल आईडी support@bankeauctions.com, सहायता हेल्पलाइन नंब . सम्पत्ति विवरणों. संपत्ति के निरीक्षण तथा ऑनलाइन बोली इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रश्न/पुछताछ के लिए आईआईएफएल एचएफएल को टोल फ्री नं. 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार के प्रातः 9.30 बजे से लेकर के सायं 18.00 बजे तक कॉल करें अथवा ई-मेल: auction.hl@iifl.com पर मेल लिखें।
- एतददारा जपरोक्त ऋणकर्ताओं को सचित किया जाता है कि वे जन घरेल वस्तओं को 7 दिवसों के अंदर एकत्र कर लें जो भौतिक अधिग्रहण किये जाने के समय पर प्रतिभत परिसम्पत्ति स्थल पर प्रती होंगी, अन्यथा आईआईएफएल-एचएफएल किसी भी परिस्थिति में सम्पत्ति की किसी हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगी। एतदद्वारा उधारकर्ता/ओं को आगे यह सूचित किया जाता है कि यदि वे उक्त वस्तुओं को उठाने/समेटने में विफल रहते हैं तो उन्हें विधि—व्यवस्था के अनुसार बेच दिया जायेगा 10. उपरोक्त अनुबंधित समय के अंदर सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भुगतान में चूक किए जाने की स्थिति में, विक्रय निरस्त कर दिया जाएगा तथा पहले चुकता की गई राषि (धर सहित) को जब्त कर लिया जाएगा तथा सम्पत्ति को फिर से बेचने के लिए रख दिया जाएगा।
- ।1. एओ के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे बिना कोई कारण बताए ही निविदा ⁄ नीलामी के नियमों एवं शर्तों को स्थगित ⁄ निरस्त कर सकते हैं अथवा उन्हें बदल सकते हैं। निविदा ⁄ नीलामी में किसी विवा की स्थिति में आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा। सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 30 दिवसीय सांविधिक विक्रय सूचना
- ऋणकर्ता को एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे निविदा ⁄ नीलामी की तिथि से पूर्व ऊपर अंकितानुसार राषि का अद्यतनीकृत ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफ रहने पर, सम्पत्ति की नीलामी की जाएगी/उसे बेच दिया जाएगा तथा शेष देयराषियों, यदि कोई निकलती हों, की वसूली ब्याज एवं लागत के साथ की जाएगी।

स्थानः गुडगांव/दिल्ली/गाजियाबाद, दिनांकः 04-जुलाई-2023 हस्ता / – प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटे

POST OFFER PUBLIC ANNOUCEMENT

TRANSPACT ENTERPRISES LIMITED Corporate Identification Number (CIN): U33130MH2013PLC243247

Registered Office: 204, 2nd Floor, Timmy Arcade, Makwana Road, Marol, Andheri East, Mumbai – 400059. Contact No: +91 9224763158 Website: www.transpact.in **E-mail Id**: info@transpact.in

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF 1,00,550 (ONE LAKH FIVE HUNDRED FIFTY ONLY) EQUITY SHARES FROM SHAREHOLDERS OF TRANSPACT ENTERPRISES LIMITED ("TEL") BY MR. RAMAN TALWAR AND MR. KAUSHIK WAGHELA (HEREIN AFTER JOINTLY REFER TO AS "ACQUIRERS") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REGULATIONS 3(1) & 4 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) GULATIONS 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS").

This Post Offer Advertisement is being issued by Aryaman Financial Services Limited, the Manager to the Offer ("Manager"), on behalf of the Acquirers, in compliance with Regulation 18 (12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations, 2011") in respect of Open Offer ("Offer") to acquire 1,00,550 (One Lakh Five Hundred & Fifty) Equity Shares of ₹ 10/- each, being constituting 26.00% of the Target Company on a fully diluted basis at a price of ₹ 140/- (Rupees One Hundred Forty Only) ("Offer Price"). This Post Offer Public Announcement is to be read with Public Announcement dated March 24, 2023 ("PA") along with the Detailed Public Statement ("DPS") published on March 31, 2023 in Financial Express (English – All Editions), Jansatta (Hindi – All Editions) and Mumbai Lakshadeep (Marathi – Mumbai Edition) with respect to the aforementioned

1	Name of the Target Company	Transpact Enterprises Limited				
2	Name of the Acquirer and PAC	N	Ir. Raman Talwar (<i>i</i> Ir. Kaushik Waghel il	• ,		
3	Name of the Manager to the Offer	Aryaman Finan	cial Services Limite	d		
4	Name of the Registrar to the Offer	Cameo Corpor	ate Services Limited			
5	Offer Details					
(a)	Date of Opening of the Offer	June 16, 2023	(Friday)			
(b)	Date of Closure of the Offer	June 30, 2023	(Friday)			
6	Last Date of Payment of Consideration	No shares were	e tendered; hence n	o payment has be	en made.	
7	Details of Acquisition	Proposed in th	e Offer Document	Ac	tual	
7.1	Offer Price	₹	140/-	₹ 140/-		
7.2	Aggregate number of shares tendered	1,00,550 ^(a)		Nil		
7.3	Aggregate number of shares accepted	1,00,550 ^(a) ₹ 1,40,77,000/-		Nil ₹ Nil		
7.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by offer price per share)					
		Number	In %	Number	In %	
7.5	Shareholding of the Acquirers along with PAC/ deemed PAC before Agreements / Public Announcement	Nil	Nil	Nil	Nil	
7.6	Shares Acquired by way of Agreements	1,24,510	32.20%	1,24,510 ^(b)	32.20% ^(b)	
7.7	Shares Acquired by way of Open Offer	1,00,550 ^(a)	26.00% ^(a)	Nil	Nil	
7.8	Shares acquired after Detailed Public Statement	Nil	Nil	Nil	Nil	
7.9	Post Offer Shareholding of Acquirer along with PAC	2,25,060 ^(a)	58.20% ^(a)	1,24,510 ^(b)	32.20% ^(b)	
	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre Offer	Post Offer	Pre Offer	Post Offer	
7.10	Number	2,60,535	1,59,985	2,60,535	2,60,535 ^(c)	
	In %	67.37%	41.37%	67.37%	67.37% ^(c)	

Note: (a) Assuming full acceptance under the Open Offer.

(b) The Acquirers shall complete the transaction under Share Purchase Agreement within the stipulated time period as provided under Reg. 22(3) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.

(c) No shares were tendered in the Open Offer and hence there are no changes in the shareholding of the public category.

Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and the Letter of Offer. All other terms and conditions of the Offer shall remain unchanged.

The Acquirers accepts the responsibility for the information contained in this Announcement and also for the obligations of the Acquirers laid down in the SEBI (Substantial Acquisitions of Shares and Takeover) Regulations, 2011 and subsequent amendments made thereof.

A copy of this Post Offer Advertisement will also be available on the SEBI website at www.sebi.gov.in, BSE website at www.bseindia.com and at the Registered Office of the Target Company i.e. 204, 2nd Floor, Timmy Arcade, Makwana Road, Marol,

THIS ANNOUNCEMENT IS ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRERS



Place: Mumbai

Andheri East, Mumbai – 400 059.

ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED (CIN No.: L74899DL1994PLC059009) 60, Khatau Building, Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. P. J. Towers

(BSE Building), Fort, Mumbai – 400 001. **Tel:** 022 – 6216 6999; Website: www.afsl.co.in Email: info@afsl.co.in **Contact Person:** Mr. Deepak Biyani / Mr. Gaurav Sanghani

Date: July 04, 2023

www.readwhere.com

स्थानः गुरूग्राम

तिथिः ३ जुलाई, 2023